SOM DATT FINANCE CORPORATION LTD.

CIN: L65921DL1993PLC377542

Date: - September 19, 2023

To,

The Department of Corporate Services, The Bombay Stock Exchange Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai — 400 001

Sub: Newspaper Advertisement regarding the Notice of Postal Ballot and Remote e-voting Interms of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015,

Dear Sir,

Please find enclosed copies of the newspaper advertisement regarding the Notice of Postal Ballot of the Company, information on remote e-voting and other related information published in the following newspapers:

- 1. Financial Express, All India Edition in English; and
- 2. Jan Satta, Delhi Edition in Hindi

The above is for your information and records.

For **SOM DATT FINANCE CORPORATION LIMITED**

Neha Agarwal Company Secretary and Compliance Officer

Encl: As above

Irdai forms panel to create Bima Sugam platform

GEORGE MATHEW Mumbai, September 18

INSURANCE REGULATOR **IRDAI** has formed a steering committee, which will act as the apex decision making body for creation of its ambitious Bima Sugam platform, and it indicated that it will soon appoint a project consultant for which Request for Proposal (RFP) has already been issued.

While Bima Sugam will enable individuals to buy a life, health, motor or property insurance policies online, its implementation has now been postponed thrice. The platform will enable easy access under a single roof for insurance companies, agents, brokers, banks and even aggregators. The platform will act as a centralised database which will assist consumers with all insurance related queries. It will also pave the way for a speedy acceptance of new or sandbox products.

After changing the deadline twice, the regulator has now set a new deadline of July 2024 for its "game changing" Bima Sugam project to go live and has for the first time unveiled the entire spectrum of services to be provided by this mega tech project. It will be

.... irdai

a centralised marketplace and a one-stop-shop for all insurance-related queries, including policy purchase, claim settlement, insurance advice and grievance redressal.

INSURANCE REGULATORY AND

DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

The steering committee is comprised of Rakesh Joshi, Member, Finance and Investment, IRDAI, Anup Bagchi, MD & CEO ICICI Prudential Life Insurance, Naveen Tahilyani, MD & CEO, Tata AIA Life Insurance, Mahesh Balasubramanian, MD & CEO, Kotak Life Insurance, Nilesh Garg, MD & CEO, Tata AIG General Insurance, Prasun Sikdar, MD& CEO, Manipal Cigna Health Insurance,

Inderjeet Singh, Secretary General, General Insurance Council and Satyendra Nath Bhattacharya, Secretary General, Life Insurance Council.

Further, Cyril Amarchand

Mangaldas (CAM) has been appointed as the legal counsel for the project. Responsibilities of CAM will include incorporation of Section 8 not-for-profit company which will be the company owning the Bima Sugam platform. The platform will support all personal and commercial/business insurance requirements and support in identifying and comparing optimal products to meet user requirements within stipulated timelines. The entire spectrum of insurance offerings through the platform will include life insurance and all its variants -- term plans, savings (Par and Non-Par), annuity and pension plans -- ULIP products, health insurance and all its variants, vehicle insurance (TP and OD), travel insurance, personal accident insurance, property insurance, commercial insurance, marine insurance, agricultural insurance and any other insurance product planned to be listed on the platform as decided by the two councils.

Will oil hit \$100? It already touched in some markets

SUPPLY DEFICIT BUOYS PRICES



■ Brent crude futures rose 79 cents to \$94.72 a barrel by 11:57 a.m. ET (15:57 GMT), while U.S. West Texas Intermediate crude futures were up \$1.24 at \$92.01

■ Citi on Monday became the latest bank to predict that Brent prices could exceed \$100 a barrel this year

ALEX LAWLER London, September 18

WITH OIL INVESTORS and traders focused on an oil-price rally that has come close to \$100 a barrel, some grades of crude oil are already trading above that milestone, highlighting an expectation of

tight supply. The outright price of Nigerian crude Qua Iboe surpassed \$100 a barrel on Monday, according to LSEG data. Malaysian crude Tapis reached \$101.30 lastweek, said Bjarne Schieldrop, analyst at Swedish bank SEB, in a report.

Oil has risen to its highest level of 2023 as investors are focused on the prospect of a supply deficit in the fourth quarter after Saudi Arabia and Russia extended supply cuts. The two are the biggest producers in the OPEC+ group, most other members of which are also curbing output.

"The overall situation is that Saudi Arabia and Russia are in solid control of the oil market," Schieldrop said.

Brent oil futures, a global benchmark, traded as high as \$94.89 on Monday and the Brent, stood just above \$96 according to LSEG.

Intermediate crude futures are on track for their biggest quarterly increases since Russia's invasion of Ukraine in the first quarter of 2022.

Citi on Monday became the

Address of the registered office

Details of place where majority of

Installed capacity of main products/ Not available

fixed assets are located

Quantity and value of main

financial year

products/ services sold in last

Further details including last

available financial statements

of creditors, relevant dates for

Number of employees/ workmen

(with schedules) of two years, lists

subsequent events of the process

Eligibility for resolution applicants

Last date for receipt of expression

Date of issue of the provisional list

of prospective resolution applicants

mail on the Email ID mentioned against Sr. No. 8

Last date for submission of

objections to provisional list

Process email id to submit EOI

Date: 19th September, 2023

Place: Mumbai

URL of website

Gold ETF inflows at 16-month high

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, September 18

GOLD EXCHANGE-TRADED FUNDS(ETFs) attracted Rs 1,028 crore in August, making it the highest inflow in 16 months, amid continued hikes in interest rates in the US, which led to a slowing down in growth rate

With this, the year-to-date inflow in the category has reached more than ₹1,400 crore, data with the Association of Mutual Funds in India (Amfi) Apart from inflow, the asset

base of Gold ETFs and investors' account or folio numbers increased in the period under

According to data, goldlinked ETFs have seen an inflow

NOTICE FOR DUPLICATE ISSUE OF

SHARE CERTIFICATES

Nos. 18393 for 287500 Equity Shares, bearing

Distinctive Numbers from 1342900-1369699,

1374100-1381699, 1400700-1410599, 1466000-

1470099, 1486700-1491099, 1498600-1505699,

1509500-1532799, 1572300-1575899, 1585700

1594599, 1600600-1611899, 1662900-1667099

1752200-1761899, 1879900-1932999, 1955200

1977199, 2009800-2017599, 2063500-2068399,

Abdul Hamid Street, 4th Floor, Kolkata - 700069

standing in the name(s) of East India Sportswear

Ltd. had been lost and that an application for the

issue of duplicate(s) in lieu thereof has been made

Objections, if any, should be made within 15 days

from the date of this publication to the Company's

Registrar & Share Transfer Agent - Niche

Technologies Pvt. Ltd., 3A, Auckland Place, 7th

The Public are cautioned against dealing in any

(Formerly: East India Sportswear Ltd. &

Eastern Fintrade Ltd.)

DIN: 06944834

Floor, Room No. 7A & 7B, Kolkata - 700 017.

way with these shares.

FORM G

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR

GREY'S EXIM PRIVATE LIMITED OPERATING IN TEXTILE

DESIGNING AND MANUFACTURE AT MUMBAI AND BENGALURU

Under Regulation 36A(1) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India

(Insolvency Resolution Process for Corporate Persons)Regulations, 2016)

RELEVANT PARTICULARS

from 2019-2020)

U51909MH2005PTC151601

A/2 309 Shah & Nahar Industrial Estate Dhanrai

Two Galas located at A/2 309 and 242 Shahs &

Nahar Industrial Estate Dhanraj Mill Compound

Plant and Machinery is located at Saptagiri Bottle

Suppliers, No. 46/2, Dasana Pura, Bangalore North

Revenue from operations was INR 54,72,28,275 as

05/10/2023 (Extended with the permission of CoC)

Resolution Professional of Grey's Exim Private Limited

Koparkharine, Thane, Navi Mumbai, Maharashtra- 400 709

Regd. Add: A501, Shanti Heights, Plot No. 2,3,9, B/10, Sector 11

Sector 30A, Opposite Vashi Railway Station, Vashi, Navi Mumbai - 400703

Read. No. IBBI/IPA-001/IP-P01368/2018-2019/12131

Correspondence Address: B610, BSEL Tech Park

Lower Parel Mumbai 400013 (Maharashtra)

(The Corporate Debtor is not operational

Currently there are no employees/workmen

Mail to greyexim.cirp@gmail.com

http://ssarvi.com/running-cases.php

Mail to greyexim.cirp@gmail.com

Note: The information mentioned herein is based on the current information available with the

Resolution Professional as of now. Any additional information received by the Resolution

Professional will be updated from time-to-time to persons making request for the same through

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL,

DIVISION BENCH - I, CHENNAI

CA(CAA)/29(CHE)/2023

Form No. CAA.2

[Pursuant to Section 230(3) and rule 6 and 7]

In the matter of the Companies Act, 2013

In the matter of section 230 to 232 read with section 66 and other applicable

provisions of the Companies Act, 2013

In the matter of scheme of arrangement

Tropical Agro System (India) Private Limited ("Tropical Agro" or

"Demerged Company")

Green Pesticides Private Limited ("Green Pesticides" or Resulting Company 1)

Concept Agrosystem India Private Limited ("Concept Agrosystem" or

"Resulting Company 2")

Techno Farm Sciences Private Limited ("Techno Farm" or "Resulting Company 3")

Their Respective Shareholders

Annamalai Building, Marshalls Road, Egmore, ... Applicant Company 1

NOTICE CONVENING THE MEETING OF UNSECURED CREDITORS

OF TROPICAL AGRO SYSTEM (INDIA) PRIVATE LIMITED

Notice is hereby given that by an order 25th August 2023 , the Chennai Bench

of the National Company Law Tribunal has directed a meeting to be held of the

Unsecured Creditors of the Demerged Company for the purpose of considering,

and if thought fit, approving with or without modification, the arrangement

embodied in the Scheme of Arrangement between Tropical Agro System (India)

Private Limited, Green Pesticides Private Limited, Concept Agrosystem India

Private Limited, Techno Farm Sciences Private Limited and their respective

n pursuance of the said orders and as directed therein, notice is hereby given that

the meeting of the Unsecured Creditors of the Demerged Company will be held on 20th October 2023 at 10:00 am at 72, Raja Annamalai Building, Marshalls

Road, Egmore, Chennai Tamil Nadu - 600 008, where the said Unsecured

Copies of the said Scheme of Arrangement and of the Explanatory Statement

under section 230 and section 102 can be obtained free of charge at the registered

office of the Company, or at the office of its Authorised Representative 72

Marshalls Road, Egmore, Chennai, Tamil Nadu – 600 008. Persons entitled to

attend and vote at the meeting, may vote in person or by proxy provided that

all proxies in the prescribed form are deposited at the registered office of the Company at 72, Raja Annamalai Building, Marshalls Road, Egmore, Chennai

The tribunal has appointed Mr. V. Nallasenapathy as the Chairperson of the said

meeting. Further the tribunal has appointed Mr. Jerin Asher Sojan as scrutinizer

for the said meeting. The above-mentioned Scheme of Arrangement, if approved

Form of Proxy can be obtained from the registered office of the Company.

by the meeting, will be subject to the subsequent approval of the Tribunal.

Creditors of the Demerged Company are requested to attend.

Tamil Nadu - 600 008 not later than 48 hours before the meeting.

Tropical Agro System (India) Private Limited

Chennai Tamil Nadu - 600 008

hareholders ("the Scheme").

A Company incorporated under the Companies

Act, 1956, having its registered office at 72, Raja

Mill Compound Lower Parel Mumbai 400013

Name of the corporate debtor along Grey's Exim Private Limited

of ₹1,028 crore in August. This came following an inflow of ₹456 crore in the segment in July.

Before that, Gold ETF saw inflow to the tune of ₹298 crore during the April-June period after three quarters of consecutive outflow. The category saw a withdrawal of ₹1,243 crore in the March quarter, ₹320 crore in the December quarter, ber quarter.

and ₹165 crore in the Septem-The month of August witnessed the highest monthly inflowinto Gold ETFs since April

2022 when the category

back of the Russia-Ukraine war. Flows into Gold ETFs have been subdued since then as the US Federal Reserve embarked

Gold prices in recent times have come off from its all-time high levels, thereby providing some buying opportunity, particularly after a sharp rally it witnessed since March this year, Melvyn Santarita, Analyst

TPNØDL

TP NORTHERN ODISHA DISTRIBUTION LIMITED (A Tata Power & Odisha Government Joint Venture)

Registered & Corporate Office: Januganj, Remuna Golei, Balasore - 756 019, Odisha, India Phone: +91 6782 244865, Email: contactus@tpnodl.com,

Website: www.tpnodl.com, CIN: U40109OR2021PLC035951 PUBLIC NOTICE

(Inviting attention of all vendors to submit pending bills for supply of goods & services pertaining to NESCO Utility for the period prior to 01.04.2021)

In line with vesting/other relevant orders, the Hon'ble Odisha Electricity Regulatory Commission (OERC) has directed to submit the pending bills/claims for the supply of goods and/or services pertaining to pre-vesting period i.e. prior to 01.04.2021 by 31st October' 2023 to OERC in case of erstwhile NESCO Utility (now TPNODL).


Therefore, in compliance to the direction of Hon'ble OERC. notice is hereby given to vendors to submit the pending claims / bills with relevant supporting documents not later than 5th October' 2023 at respective division office

TP Northern Odisha Distribution Limited

FROM THE FRONT PAGE

Household savings fall to nearly 50-year low

Household financial liabilities










Investment in equity % of net financial assets



NIKHIL GUPTA, economist at Motilal Oswal said the combination of weak income growth and falling financial savings, led by borrowings, is unsustainable. "We believe that consumption growth is unsustainable. Whether it will be substituted by investments is not our base case, though the jury is still out," Gupta said. According to Gupta, the household debt is the second-highest annual flow post indepen-

Household savings, RBI data show, came in at ₹13.76 trillion in FY23 compared with ₹16.96 trillion in FY22. To be sure, the trend could reverse if the economy picks up pace and real incomes grow. However, both consumption and investments could be impacted if savings don't pick up meaningfully in the current year.

In a break from trend, private consumption final expenditure(PFCE) improved to 6% y-o-y in Q1FY24, higher than the 2.8% y-o-y in Q4FY23 and 2.2% y-o-y in Q3FY23, likely helped by lower inflation. Data for July and August suggest mixed trends for consumption, with passenger wholesale car sales, auto retail sales, and air traffic doing well, but wholesale two-wheeler and tractor sales, rail passenger traffic, aviation cargo and consumer goods imports not faring as well.

The Q1FY24 GDP data revealed that investment was more buoyant than consumption and that urban demand was higher than rural demand.

Corporate commentary after the June quarter numbers suggested that while not declining, rural demand was seeing a slow recovery. "Already, we find that rural indicators such as real rural wages and non-durables consumption, are weakening," HSBC India economist Pranjul Bhandari said recently. Real

rural wages contracted for 12 straight months to March.

While the in commodity prices led to better economic activity in the last few quarters, the rising crude oil prices, which are nudging \$95 /barrel, could hurt consumption. Moreover, weaker than expected agri-output could also have a bearing on rural demand.

New power plan: India to burn 38% more coal

ACCORDING TO the nationally determined contributions (NDCs), India needs to have 50% installed power capacity from non-fossil fuel sources and reduce emission intensity of its GDP by 45% from the 2005 level, both by 2030.

India has already set up 44% non-fossil fuel power generating capacity and is likely to take it up to 60% by 2030. On emissions, India has reportedly slashed 33% of emissions intensity of its GDP from 2005 level by 2019 itself.

However, the announcement to expand the thermal power capacity, instead of retiring polluting plants, even after initiating dozens of clean energy measures shows India wants to ensure energy security at all cost to fuel its growth.

The country has set the ball rolling on various fronts like renewable energy, energy storage systems, critical minerals, international grid connections and green hydrogen so that power shortage does not trip India's fast growth. "Unless the battery eco-

nomics improve significantly or we see a significant scale up in pumped hydro projects, there could be some challenges," said Vikram V, vicepresident and sector head, corporate ratings, Icra. "If storage capacity does not come up, we may have to

plan for coal-based capacity because we can't go for a scenario of having blackouts," he said, adding meeting peak demands in evening is becoming a challenge. While the government may be preparing for all scenarios and hoping for some break-

through technology in storage, the resources are being spread thin and the message going across to the industry is confusing. The power minister has asked industry captains to shift to renewable energy, which may be a tough task for power-intensive industries

who have captive power plants,

while announcing plans to

generate more coal power. "There's a lack of clarity in trying to communicate what you eventually want to do with the mining and thermal power infrastructure," said Aarti

Khosla, founder and director of Climate Trends, a Delhi-based firm that facilitates capacity building for climate action.

She advocated putting the money going into coal projects into grid expansion and transmission line for better evacuation of renewable energy. A pre-G20 discussion on just energy transition partner-

ship did not find any takers in the G20 meetings. India did not even take that discussion forward as it may not want to talk about shutting of coal power. So, it just talked about expanding renewables. "Air pollution is a big prob-

lem. It is in our own good to make sure that polluting, inefficient or older plants are retired in a rapid way and replaced by renewable power," Khosla said.

PM bids adieu to old Parliament building



"BIDDING GOODBYE to this building is an emotional moment... Many bitter-sweet memories are associated with it. We had differences and disputes but we witnessed 'parivar bhav' ('family emotion'). This building will always inspire future generations,"he

According to Modi, though the existing building had been planned by "foreign powers", it had the "sweat, efforts and money of my country men."

Tracing the almost eightdecade-old history of Parliament House, Modi took the Opposition by surprise with his praise of Nehru. The echo of Nehru's historic 'Tryst with destiny' speech, he said, will continue to inspire the country's elected representatives.

"The echo of Nehru ji's Stroke of Midnight speech will inspire us. In the same House, Atalji's (Atal Bihari Vajpayee's) words about 'sarkarein aayengi, jayengi; partiyan banengi, bigdengi; lekin yeh desh rehna chahiye' (governments may come and go; parties will be formed or disbanded; but this nation has to live on) continue to echo even today," he said.

He credited P V Narasimha

Rao for India "adopting new economic policies and measures" under his leadership at a time when the "country was reeling under economic dis-

Recalling the journey of India's democracy, Modi said the last day in this heritage building should be dedicated to the over 7,500 Parliamentarians - over 600 women included - who served in this building since Independence. He also remembered Sardar

Vallabhbhai Patel, Ram Manohar Lohia, LKAdvani and others for "enriching the discussions and emboldened the voice of the common citizens" in the House.

The Prime Minister used his own story to underline the robustness of Indian democracy. He said he had never imagined that "a child from a poor family, living on a railway platform", would reach Parlia-

"When I first entered...as an MP... I bowed down and honoured the Temple of Democracy. It was an emotional moment... I could have never imagined a child from a poor family, living on the railway platform, would ever be able to enter Parliament. I never imagined I would get so much love."

"But this is the strength of India's democracy and a reflection of the faith of the common man of India towards democracy that a child from a poor family, living on the railway platform, reached Parliament," he said.

Stating that the world is talking about the India story, especially after the success of the G20 Summit and the successful Moon landing of the Chandrayaan-3, the Prime Minister said those were the result of "collective efforts".

He listed the landmark legislation of his government during the last nine years."The House will always say proudly that (the abrogation of) Article 370 became possible due to it... GST was also passed here... 'One Rank-One Pension' was witnessed (and) 10 per cent reservation for the Economically Weaker Sections was successfully allowed for the first time without dispute," Modi

He also recalled the bravery of Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt who hurled bombs in the same Parliament building to wake up the British empire from its slumber. "The echo of that bomb still gives sleepless nights to those who wish well for this country," he said.

said.

He remembered the terror attack on Parliament House and the role of those who took bullets to save Members while fighting terrorists. "It was not an attack on the building, but an attack on the Mother of Democracy itself. It was an attack on the soul of India," he said.

related benchmark used for 2153500-2163299, 2219200-2222099, 2248600-2264199, 2276900-2279399, 2324600-2328599, trading much of the world's 2364700-2375099, 2403300-2406599, 2494600physical cargoes, called dated 2506299, 2564300-2572699, 2576000-2586199 in EITA India Ltd. having its registered office at 20B,

Brent and US West Texas

latest bank to predict that Brent prices could exceed \$100 a barrel this year.

FORM B PUBLIC ANNOUNCEMENT

[Regulation 12 of the IBBI (Liquidation Process) Regulations, 2016] FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF

JBM HOMES PRIVATE LIMITED DETAILS JBM HOMES PRIVATE LIMITED Name of the Corporate Debtor 13/01/2015 Date of incorporation of Corporate 3. Authority under which Corporate Registrar of Companies, Chennai Debtor is incorporated /registered U74999TN2015PTC098813 4. Corporate Identity No. of Corporate Address of the registered office and principal office (if any) of Chennai - 600043, Tamil Nadu Corporate Debtor 12/09/2023 Date of closure of Insolvency Resolution Process (NCLT Order copy received on 14/09/2023) of Corporate Debtor Name: Mr. Venkataraman Subramanian 8. Name and registration number of the insolvency professional acting IBBI Regn. No. as Liquidato Flat No A 4, Ramar Kutil, 3/5 Second Main Road, on 31st March 2019 (As per the last available Balance Gandhi Nagar, Adyar, Chennai-600 020, Liquidator, as registered with the Email: ipvenkataraman@gmail.com 10. Address and e-mail to be used for 2nd Floor, Hari Krupa, No. 71/1, Mc Nicholas correspondence with the Road (off. Poonamallee High Road), Chetpet, Liquidator Chennai - 600 031 Phone: 044-2836 1636 Email: jbmhomesliq@gmail.com Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, Chennai Bench has ordered

the commencement of liquidation of JBM Homes Private Limited on 12th September The stakeholders of JBM Homes Private Limited are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 12th October 2023, to the Liquidator at the address mentioned against item No.10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other stakeholders may submit the claims with the proof in person, by post or by electronic

Submission of false or misleading proof of claims shall attract penalties. n case a stakeholder does not submit its claims during the liquidation process, the claims submitted by such a stakeholder during the corporate insolvency resolution process unde

the IBBI (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 shall be

Date: 19/09/2023 Place: Chennai

IBBI Regn. No. IBBI/IPA-002/IP-N01068/2020-21/13433 Authorisation for Assignment valid upto 13/02/2024

SOM DATT FINANCE CORPORATION LIMITED

CIN: L65921DL1993PLC377542 EGD OFFICE: 516, Suneja Tower-I, District Centre, Janakpuri, Delhi - 110050 Tel.: +9810228093, E-mail id: compliancesdfl@gmail.com,

Website: www.somdattfin.com POSTAL BALLOT NOTICE AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that SOM DATT FINANCE CORPORATION LIMITED ('the Company') is seeking approval of the Members of the Company by way of postal ballot through remote e-voting on the following resolution(s):

Ordinary Resolution To appoint Dr. Bhaskara Rao Bollineni (DIN: 00008985) as Non-Executive Director of the Company. To appoint Mr. Bhavanam Ruthvik Reddy (DIN: Special Resolution 08372627), as Whole Time Director and Chief

To appoint Mr. Veera Venkata Subba Rao Meka (DIN: Special Resolution 07173955) as Managing Director of the Company. Non-Executive Independent Director of the Company

Executive Officer of the Company.

The Postal Ballot Notice ('Notice') is available on the website of the Company at www.somdattfin.com, the website of the National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com and on the website of BSE Limited at www.bseindia.com on which the equity shares of the Company are listed In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, and the General

Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 2020, 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 dated December 8, 2021, 3/2022 dated May 5, 2022, and 11/2022 dated December 28, 2022, issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively called 'MCA Circulars'), the Company has sent the electronic copies of Postal Ballot Notice along with the explanatory statement on Monday, September 18, 2023, ONLY through electronic mode, to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/depository participant(s) as on Friday, September 15, 2023 ('Cut-off date'). Accordingly, a physical copy of the Notice along with the Postal Ballot Form and prepaid business reply envelope has

not been sent to the Members. The Company has engaged the services of NSDL to provide a remote e-voting facility to all its Members. The remote e-voting period commences on Wednesday, September 20, 2023, from 9.00 am. (IST) and ends on Thursday, October 19, 2023, at 5.00 pm. (IST). The e-voting module shall be disabled by NSDL there after. Members who have not updated their e-mail address are requested to register the same in respect to shares held by them in electronic form with the Depository through their depository participant and in respect of shares held in physical form by writing to the Company's Registrar and Transfer Agent, RCMC Share Registry Pvt. Ltd ('RTA') either by email to investor.services@rcmcdelhi.com or by post Investor Cell, RCMC

Share Registry Pvt. Ltd. B-25/1, First Floor, Okhla Industrial Area, Phase 2, New Delhi The Board has appointed Mrs. Jyoti Narang (Membership No. 5698 CP No: 5199) partner of Naveen Narang & Associates, Practicing Company Secretaries, as the

Scrutinizer for conducting the postal ballot process fairly and transparently. The Scrutinizer will submit his report to the Board, or any other person authorized by him, after the completion of scrutiny of the e-voting, and the result will be announced on or before Friday, October 20, 2023, and will also be displayed on the Company website i.e. www.somdattfin.com and the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com and Intimated to BSE Limited ('BSE'), where the equity shares of the Company are

In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call at 022 -4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to Mr. Amit Vishal, Asst. Vice-President, NSDL, or Mr. Sanjeev Yadav, Asst. Manager, NSDL at evoting@nsdl.co.in or NSDL, 4" Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400013.

By Order of the Board SOM DATT FINANCE CORPORATION LIMITED

Date: 12th September, 2023 Company Secretary

financialexp.epapr.in







Dated this 19th Day September 2023

Chairperson appointed for the meeting

V Nallasenapathy

Demerged Company

listed, on the said date

Place: Hyderabad

Neha Agarwal

New Delhi

attracted ₹1,100 crore on the

on its tightening cycle.

Manager Research at Morn-

ingstar India, said.

पत्रांक सं0: 557

(रु. पांच मात्र) प्रति के 480 इक्विटी शेयरों के लिए शेयर प्रमाण पत्र सं. ४७३ विशिष्ट सं. १३५९२७ से 136166 तथा 20533609 से 20533848 है जो एवीएम ऑटो लिमिटेड का है तथा हरीश भाई शंकर पुरोहित तथा चेतना हरीश पुरोहित के नाम से पंजीकृत है, के गम हो जाने/खो जाने की सचना मिली है तथा डुप्लिकर शेयर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कम्पनी को आवेदन प्राप्त हुआ है। उक्त शेयर प्रमाण पत्र के संदर्भ में यदि किसी व्यक्ति का कोई दावा से, वे इस सचना के प्रकाशन से 15 दिनों के भीतर उसके पंजीकृत कार्यालय 601 हेमकुन्ट चैम्बर्स, 89, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 में कम्पनी के पास ऐसे दावे दाखिल करें जिसके बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं होग तथा कम्पनी डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अग्रसर होगा। स्थान : दिल्ली हरीश भाईशंकर परोहित

तिथि : 19.9.2023 चेतना हरीश पुरोहित

केन्द्रीय विद्यालय पुष्प विहार, सैक्टर-3, एम.बी. रोड़, साकेत

केंद्रीय विद्यालय पुष्प विहार साकेत नई दिल्ली में कैंटीन हेतु प्रतिष्ठित / पंजीकृत फर्मी से सभी कार्य दिवसों में प्रातः 11:00 से दोपहर 2:00 बजे तक केंद्रिय विद्यालय, पुष्प विहार (प्रथम पाली) रू 500 / — भुगतान देकर प्राप्त कर सकते है। मृहरबंद निविदा इस सूचना के समाचार पत्र में प्रकाशन के 12 दिन के अंदर इस कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए।

प्राचार्य

सूचना एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि रु. 10/- क सम मूल्य के 100 इक्विटी शेयरों विशिष्ट सं. 117401-117500 के लिए प्रमाण पत्र तथा

लता फिटटर के नाम में स्थित **आयशर मोटर्स** लि. का प्रमाण पत्र सं. 1193 गुम अथवा स्थानच्युत हो गया है तथा अद्योहस्ताक्षरी ने उक्त शेयरों का इप्लिकेट प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कम्पनी को आवेदन दिया है। यदि किसी व्यक्ति का उक्त शेयरों के संदर्भ में कोई दावा हो, वे इस तिथि से एक माह के भीतर उसके पंजीकृत कार्यालय **एबॉट इंडिया लि**., 3रा तल-सलेक्ट सिटीवाक, ए-3 डिस्ट्क्ट सेन्टर, साकेत, नई दिल्ली, दिल्ली, 110017 में कम्पनी के पास ऐसे दावे दाखिल करें अन्यथा डुप्लिकेट प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कम्पनी अग्रसर होगी।

तिथि : 19.9.2023 शेयर धारक का नाम स्थान : दिल्ली लताबेन नवीनचन्द्र, फिटर

गाबा होमटेक्स प्राईवेट लिमिटेड CIN No. U74899DL1990PTC039627 **पंजी. कार्यालय** : प्लॉट नं. 104, खसरा नं. 42, भूतल अपना बाजार के निकट, ग्राम बादली, दिल्ली-110042 ईमेल आईडी : gm.ghpl0@gmail.com प्रपत्र-आईएनसी 26

कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 (6) (ए) के अनुपालन में सार्वजनिक सचना क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय,

बी-2 विंग, 2 रा तल, पं. दीन दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली- 110003 के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की

धारा 13 (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 (6) (ए) के मामले में

गाबा होमटेक्स प्राईवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं. 104, खसरा नं. 42, भूतल अपना बाजार के निकट, ग्राम बादली, दिल्ली-110042, में है,

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "रा.रा. क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 22.08.2023 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पृष्टि के लिए

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह आवेदक कंपनी क्षेत्रीय निर्देशक, उत्तरी क्षेत्र, 2 रा तल, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, पर्यावरण भवन, लोधी रोड दिल्ली-110003 के पास आवेदन का प्रस्ताव करता है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र कॉर्पोरेट कार्य

भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें: बोर्ड के आदेश से गाबा होमटेक्स प्राईवेट लिमिटेड तिथि : 18.9.2023 हस्ता./- अनिल गाबा स्थान : दिल्ली निदेशक

मंत्रालय, बी-2 विंग, 2 रा तल, पं. दीन दयाल अन्त्योदय

DIN No.: 00265525 पता : 662, पृथि चौक मॉडल टाउन, पानीपत-132103 (हरियाणा

कार्यालय नगर पालिका परिषद, सरधना (मेरठ)

दिनांक: 19.09.2023 ''नीलामी सूचना''

सर्व साधारण को एतद द्वारा सुचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद, सरधना (मेरठ) द्वारा मीहल्ला बुढ़ा बाबू रोड निकट शहीद द्वार के पास पालिका की खाली पड़ी भूमि व सरधना थाने के समीप निर्मित दुकान संख्या 19 व सन्त चार्ल्स चौराहे पर पम्प नबर 3 के समीप निर्मित दुकान जहां है जैसी स्थिति में है के आधार पर प्रीमीयम धनराशि लेकर किराये पर देना चाहती है जिस हेतु दिनांक 25. 09.2023 को अपरान्ह 3:00 बजे पालिका कार्यालय में नीलामी की कार्यवाही की जायेगी

किराये हेतु पालिका भूमि व दुकानों का विवरण

寿0 सं0	दुकान व खाली पड़ी भूमि का विवरण	पंजीकरण शुल्क + 18 प्रतिशत जीएसटी प्रत्येक के लिये	निर्धारित मासिक किराया	THIDDD 9		अभ्युक्ति	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	मीहल्ला बूढ़ा वाबू रोड निकट शहीद द्वार के पास पालिका की मीके पर खाली पड़ी भूमि खसरा संख्या 2390 मि0 में क्षेत्रफल 407.05 वर्ग मी0	2000 + 360 = 2360	15000+ जीएसटी एज एप्लिकेविल	58,20,815	29,10,500	भूमि के लिए केवल भूमि तल ही दिया जायेगा छत पालिका की होगी।	
2.	सरधना थाने के समीप निर्मित दुकान संख्या 19	424 + 76 = 500	2000+ जीएसटी एज एप्लिकेविल	3,93,790	1,96,900	दुकान का प्रथम तल ही दिया जायेगा दुकान की छत पालिका की होगी।	
3.	सन्त चार्ल्स चौराहे पर पम्प नम्बर 3 के समीप निर्मित दुकान	424 + 76 = 500	2000+ जीएसटी एज एप्लिकेबिल	2,82,340	1,41,200	दुकान का प्रथम तल ही दिया जायेगा दुकान की छत पालिका की होगी।	

उक्त दुकानों में आवेदन हेत् आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

2. उक्त खाली पड़ी भूमि पर संबंधित द्वारा अपने व्यय पर निर्माण करना होगा तथा निर्माण किसी भी परिस्थिति में सतह से 12 फूट लेन्टर की ऊंचाई से अधिक नहीं होगा तथा निर्माण के ड्राईंग पालिका से अनुमोदन कराकर ही निर्माण करेगा। उक्त निर्माण में नाले की ओर से 6 फुट रास्ता इस प्रकार से छोड़ना होगा कि छत का प्रयोग पालिका द्वारा किया जा सके।

3. नगर पालिका परिषद, सरधना की उक्त दुकानों हेतु प्रतिभाग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नगर पालिका परिषद सरधना के कार्यालय से संबंधित पर यदि पालिका का ग्रहकर, जलकर, जलमूल्य आदि बकाया है, तो उसे जमा कराते हुए पालिका से जमा का प्रमाण पत्र व आई0डी0 प्रफ स्वयं हस्ताक्षरित करते हुए पंजीकरण अविध दिनांक 18.09.2023 से दिनांक 25.09.2023 को प्रातः 10 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक पालिका कार्यदिवसों में पालिका कार्यालय में कराने के समय उपलब्ध कराना होगा।

4. भूमि/दुकानों के आवंटन हेतु आवेदक पालिका कार्यालय से प्रातः 10 से सायं 2:00 बजे तक किसी भी पालिका कार्यदिवस में उपरोक्तानुसार अंतिम दिनांक से एक दिन पूर्व तक पालिका कार्यालय से अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते है।

 उक्त भूमि / दुकानों के आवंटन प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ही आवेदनकर्ता भाग लेने हेतु अई होगा। व्यक्तिगत रूप से ही आवेदनकर्ता को वांछित धरोहर जमा करनी होगी।

6. अधिकतम बोलीदाता द्वारा प्रीमीयम की धनराशि जमा कराने के बाद ही अन्य न्युनतम बोलीदाता की धरोहर धनराशि अन्य कार्यवाही पूर्ण होने के आगामी एक माह के बाद बिना व्याज व क्षतिपूर्ति आदि के वापसी की जायेगी अर्थात जमा धरोहर की धनराशि ही वापसी होगी इस हेत् किसी का भी आवेदक का कोई आवेदन/ अनुरोध प्रार्थना पत्र प्रथक से स्वीकार नहीं होगा।

7. नीलामी की दिनांक को यदि कोई आकस्तिम अवकाश या पालिका के प्रशासनिक अधिकारियों की कोई बैठक आदि आहुत होती है या अन्य किसी अकस्मात परिस्थिति में अवकाश आदि रहता है. तो नीलामी की कार्यवाही आगामी कार्य दिवस में होगी।

 नीलामी की दिनाक की बोलीदाता की उपस्थित अनिवार्य होगी, यदि बोलीदाता बोली की दिनांक व समय पर उपस्थित नहीं हो पाता है तो बोलीदाता का कोई कथन/अन्रोध अथवा प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं होगा।

9. अधिकतम बोलीदाता की बोली स्वीकृत होने के बाद स्वीकृत निविदाता को पालिका द्वारा प्रेषित स्वीकृति सूचना प्रेषण के 15 दिन के अन्दर-अन्दर प्रीमीयम धनराशि की सम्पूर्ण धनराशि (जमा धरोहर धनराशि को छोडकर) नगर पालिका के आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक शाखा सरधना में जमा करनी होगी, जिसकी लिखित सुचना व जमा रसीद की छायाप्राति पालिका कार्यालय में उक्त अवधि में प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी, अधिकतम निविदादाता की सम्पूर्ण प्रीमीयम धनराशि उपरोक्तानुसार जमा कराने व पालिका कार्यालय में सूचना प्रेषण करने के बाद जमा धरोहर धनराशि की वापसी की कार्यवाही की जायेगी, यदि पालिका द्वारा प्रेषित स्वीकृति पत्र सूचना के 15 दिवस के अन्दर-2 अधिकतम बोलीदाता प्रीमीयम की सम्पूर्ण धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो उसकी जमा धरोहर जब्त करते हुए पुनः आवंटन की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसमें संबंधित का कोई भी अनुरोध/ लिखित प्रार्थना पत्र/दावा स्वीकार योग्य

बोलीदाता को निर्धारित मुल्य के स्टाम्प पर अपने व्यय से किरायानामा सम्पादित कराना अनिवार्य होगा ।

11. बोलीदाता की स्वीकत बोली की दिनांक से अपने खर्चें पर प्रत्येक 5 वर्ष बाद किरायानामा नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा प्रत्येक 5 वर्ष बाद तत्समय के किराये में 25 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी, ऐसा न करने पर संबंधित के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हए संबंधित का आवंटन निरस्त करते हुए उक्त दुकान के पुनः आवंटन की प्रक्रिया की जायेगी।

12. दुकान आवंटन उपरान्त आवंटित किरायेदार द्वारा दुकान की नियमित रूप से रंगाई-पुताई स्वयं अपने खर्चें पर करनी होगी।

13. दुकान / भूमि का किराया प्रत्येक माह की 5 तारीख तक जमा कराना अनिवार्य होगा, उसके बाद 100 रूप प्रतिमाह विलम्ब शुल्क देने के बाद ही किराया जमा होगा।

14. दुकानां की छत पर कोई भी किरायेदार किसी भी तरह का निर्माण अथवा प्रक्षेप्य पक्का टीनशेड, पन्नी, तिरपाल आदि से नहीं करेगा व खाली पड़ी भूमि की नीलामी पर संबंधित अधिकतम बोलीदाता अपने व्यय पर इस प्रकार प्रथम तल का निर्माण करेगा कि पालिका द्वारा प्रथम तल की छत का प्रयोग पालिका के प्रयोग हेत् किया जा सके।

15. निर्मित दुकानों में किरायेदार किसी प्रकार का वाहय व इन्टरनल परिवर्तन पालिका की बिना पूर्व अनुमति के नहीं करेगा, यदि अनुमति के बिना दुकानों में परिवर्तन किरायेदार द्वारा किया जाता है तो उसका आवटंन निरस्त करते हुए उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।

16. दुकानों के रास्ते में किसी भी प्रकार का निर्माण अथवा प्रक्षेप्य अवैधानिक होगा, ऐसा करने वाले किरायेदार का आवटंन निरस्त

17. किरायेदार को नगर पालिका परिषद, राज्य सरकार या अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा लगाये जाने वाले समस्त कर स्वयं वहन करने

18. किरायेदार द्वारा दुकानों में बिजली व पानी का कनैक्शन किरायेदार द्वारा स्वयं अपने खर्चे से लिया जायेगा, इस संबंध में नगरपालिका परिषद सरधना द्वारा कोई भी व्ययभार नहीं दिया जायेगा।

19. मादक पदार्थ एवं मांस तथा शराब आदि का व्यापार खोलने की अनमित नहीं दी जायेगी, प्रक्रिया में प्रतिभाग करने से पहले आवेदन पत्र में दुकान में किये जाने वाले व्यवसाय का उल्लेख करना अनिवार्य है, उक्त उल्लिखित व्यवसाय को नगर पालिका परिषद सरधना की अनुमति के बगैर परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

20. भूमि /दुकानों के आवंटन उपरान्त पालिका दुकानों को अपने प्रयोग हेतू दृष्टिगत रखते हुए किसी भी समय एक माह के नोटिस पर संबंधित का आवंटन निरस्त कर खाली करा सकती है। पालिका अपनी आवश्यकता अनुसार यदि दुकान खाली कराती है, तो संबंधित का प्रीमीयम बिना ब्याज के देय होगा, जिसमें संबंधित का कोई भी आवेदन/अनुरोध स्वीकार नहीं होगा।

21. किसी भी विवाद की स्थिति में अन्तिम निर्णय अध्यक्ष / अधिशासी अधिकारी का होगा।

करते हुए उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।

22. बोली को बिना किसी कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार भी अध्यक्ष/ अधिशासी अधिारी में निहित होगा।

(1) उक्त से संबंधित अन्य जानकारी हेत् किसी भी पालिका कार्यदिवस में पालिका कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। उक्त हेत् पालिका के कर्मचारी श्री मुनीश कुमार जिनका दूरभाष संख्या 9837634845 व श्री मनोज कुमार, लिपिक जिनका दूरभाष संख्या 8630768775 है से जानकारी ली जा सकती है।

(2) नीलामी में भाग लेने हेतु पालिका कार्यालय में उपरोक्त के कॉलम 3 में उल्लिखित अनुसार दुकान/भूमि की नीलामी हेतु उनके सम्पूख अंकित धनराशि पालिका कार्यालय में नकद जमा कराकर दिनांक 18.09.2023 से दिनांक 25.09.2023 को प्रातः 10 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक पालिका कार्यादिवसों में पंजीकरण करा सकता है।

(शशि प्रभा चौधरी) अधिशासी अधिकारी

(सबीला बेगम) नगर पालिका परिषद, सरधना नगर पालिका परिषद, सरधना

एचडीबी फाइनीशयल सविसेज लिमिटेड कब्बा सूचन पंजीकृत कार्यालयः राधिका, 2रा तल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात, पिनको शाखा कार्यालयः एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ई-145, रमेश मार्ग, सरदार पटेल मार्ग के सामने सी-स्कीम, जयपुर राजस्थान 302001

जैसा कि, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के अधिकृत प्राधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथ प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 64) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) कहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित कर्जदारों को कथित सुचना में उल्लिखित राशि तथा भगतान की वास्तविक तिथि तक समस्त लागतों, प्रभारों एवं व्ययों का कथित सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीत पुनर्भुगतान करने को कहते हुए माँग सूचना जारी की थी। कथित कर्जदार/सह-कर्जदार के राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदार/सह-कर्जदार तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमं के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत इसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति का उसके साथ उल्लिखित तिथि पर सांकेतिक कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसामान्य कं अतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ लेन-देन सम्बद्ध तिथि भावी ब्याज, लागत तथा प्रभारों सहित यहाँ निर्दिष्ट राशि हेतु एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा। कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानतियों का विवरण, ऋण खाता संख्या, ऋण की राशि, प्रतिभति का विवरण, माँग सचन की तिथि, दावाकृत राशि; कब्जा करने की तिथि नीचे दी गयी है:

1) कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानती का नाम एवं पता; 2) ऋण खाता संख्या; 3) ऋण की राशि; 4 प्रतिभृतियों का विवरण; 5) माँग सूचना की तिथि; 6) दावाकृत राशि रु. में; 7) कब्जा करने की तिथि

प्लॉट नंबर: – 73, राजस्व ग्राम– जावद (खसरा नंबर 868, 869, 870, 871, 1077, 1078, 1079), कांकरोर तहसील एवं जिला राजसमंद-313324 राजस्थान पर स्थित : ऋण खाता क्रमांक 5884873; ऋण राशिः रु. 279000 (रुपये सत्ताईस लाख नब्बे हजार मात्र); मांग सूचना दिनांकः 15.06.2021; दावा की गई राशि 15-जून-2021 तक रु. 3205323.30 (रुपये बत्तीस लाख पांच हजार तीन सौ तेईस और तीस पैसे मात्र) औ आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदि के साथ वास्तविक प्राप्ति तक भावी संविदात्मक ब्याज; प्रतिभृति का विवरण संपत्ति प्लॉट नंबर 73, राजस्व ग्राम-जावद (खसरा नं. 868, 869, 870, 871, 1077, 1077, 1078, 1079) क समस्त भाग, कांकरोली तहसील और जिला राजसमंद, राजस्थान-313324 में स्थित, माप 1200 वर्ग फीट। संपत्ति की सीमाएँ: उत्तर: प्लॉट नं. 90, दक्षिण: रास्ता, पुर्व: प्लॉट नं. 74, पश्चिम : प्लॉट नं. 72. कब्जे की तिथि: 14.09.202 अतः आप कर्जदारों/सह-कर्जदारों और गारंटरों से अनरोध है कि वे इस नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर भावी ब्याज सहित मांग की गई रा का पर्ण रूप से भगतान कर दें जिसमें विफल होने पर अधोहस्ताक्षरी उपर्यक्त प्रतिभतियों को अधिनियम के तहत प्रवर्तित करने के लिए बाध्य होगा किसी पुछताछ के लिए कृपया सम्पर्क करें : श्री भुपिन्दर सिंह बन्याल, 8360772826 या श्री विकास आनन्द, 9711010384, एचडीब

फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड : ई-145, रमेश मार्ग, सरदार पटेल मार्ग के सामने, सी-स्कीम, जयपुर राजस्थान 302001 स्थान : राजसमंद, तिथि : 19.09.2023 ह./- अधिकृत प्राधिकारी, कृते एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING आदित्य बिंडला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

शाखा कार्यालयः आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर, दुसरी मंजिल, प्लॉट नं. के-14-सी अशोक मार्ग, सी-स्कीम जयपूर-302001 1. एबीएचएफएलः प्राधिकृत अधिकारी श्री देवेन्द्र राठौड़; संपर्क नंबर-9829222694 एवं श्री अमित भारद्वाज; संपर्क नंबर— 919784494448, चिराग लोखंडे संपर्क नंबर +91 9773758208 1. नीलामी सेवा प्रदाता (एएसपी)— मैसर्स ग्लोब टेक इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड-श्री समीर चक्रवर्ती

अचल सपात की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुननिर्माण तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावल 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 व तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्दवारा आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ताओं एवं गारंटरों को नोटिस दिया जाता कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड / सुरक्षित लेनदा को गिरवीध्चार्ज की गई हैं,जिसका कब्जा आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड / सिक्यो क्रेडिटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है। इसको उधारकर्ता अर्थात ललित परिहार शोभा परिहार, मैसर्स गणेशम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड / सिक्योर्ड क्रेडिटर को देय राशि 19-08-2022 के अनुसार भारतीर रु.58,80,372.48 / – (रुपये अट्टावन लाख अस्सी हजार तीन सौ बहत्तर और अड़तालीस पैसे मात्र) और वसूली की तारीख तक आगे का ब्याज और अन्य खर्च की वसूली के लिए 25.10. 2023 को'' जैसा है जहां है'',''जैसा है जो भी है'' और ''जो कुछ भी वहां है'' पर विक्रय किया

आरक्षित मूल्य भा.रु.1,53,22,000 / – (एक करोड़ तिरपन लाख बाईस हजार रुपये मात्र) औ बयाना राशि (ईएमडी) रु.15,32,200 / – (पंद्रह लाख बत्तीस हजार दो सौ रुपये मात्र) होगी ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 23–10–2023 है। उक्त संपत्ति के निरीक्षण की तिथि दिनांक 20-10-2023 को प्रातः 11:00 बजे से सायं 04:00 बजे के बीच निर्धारित की गई है अचल संपत्ति का विवरण

आशापर्णा एन्क्लेव, खसरा नंबर 292 / ७, ग्राम-पाल, जोधपर में स्थित प्लॉट नं. ९३ का वर समस्त हिस्सा और अंश, जिसका क्षेत्रफल 3300 वर्ग फूट अर्थात 366.66 वर्ग गज है औ चौहद्दी : पूर्वः ४० फूट रोड, पश्चिमः प्लॉट नं. १२२, उत्तरः प्लॉट नं. ९४, दक्षिणः ६० फूट सङ्क मापः उत्तरः 50 फुट, दक्षिणः 60 फुट, पूर्वः 55 फुट, पश्चिमः 55 फुट।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए,कृपया आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, सिक्योर्ड क्रेडिटर की वेबसाइट https://homefinance.adityabirlacapital.com/proper ties-for-auction-under-sarfaesi-act या https://BestAuctionDeal.com में दिए ग लिंक को देखें।

दिनांकः 19.09.2023 प्राधिकृत अधिकारी आदित्य बिडला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड स्ताहन : जोधपुर

रामगढ़ ट्रेडलिंक्स प्राइवेट लिभिटेड (परिसमापन में) (पहले मोन्टेन पैकेनिंग सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ज्ञात) सीआईएन: यू51909डीएल2019पीटीसी354413

पंजीकृत कार्यालय : 217, प्रथम तल, आदर्श मोहल्ला, पटपड्गंज, ईस्ट दिल्ली-110091 ऋणशोध अक्षमता और दिवाला संहिता, 2016 के तहत द्वितीय ई-नीलामी बिक्री

एतदद्वारा सर्वसाधारण को ऋणशोध अक्षमता और दिवाला संहिता, 2016 और तदधीन विरचित विनियम के तहत सुचना दी जाती है कि रामगढ़ ट्रेडलिंक्स प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) ("कार्पोरेट देनदार" की आस्तियां भारतीय ऋणशोध अक्षमता और दिवाला बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 व विनियम 32 (सी) के अनुसार सामूहिक रूप से "जैसी है जहां हे, जो है वहां है तथा कोई वापसी नर्ह आधार" पर बेची जानी प्रस्तावित हैं और अतएव निपटान हेत् उक्त प्रस्ताव किसी भी प्रकार की वारंटियं तथा क्षतिपूर्तियों के बगैर है। नीचे तालिका में वर्णित आस्तियों के लिए बोलीदान ऑनलाइन ई-नीलार्म सेवा प्रदाता मैसर्स लिंकस्टार इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से www.eauctions.co.in द्वारा

	के साथ
	बजे के बीच 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तारों
ई–नीलामी की तिथि एवं समय	20—10—2023 को अप3.00 बजे से अप. 05.00
ईएमडी जमा करने हेतु अंतिम तिथि	17—10—2023 को अथवा पूर्व अप. 07.00 बजे तक
	से अप. 05.00 बजे तक)
निरीक्षण तिथि एवं समय	09-10-2023 से 16-10-2023 तक (पूर्वा. 10.00 बजे
इत्यादि का प्रस्तुतीकरण	से पूर्व
संभावित बोलीदाता द्वारा आवश्यक प्रपत्र, शपथत्र, घोषण	19—09—2023 से 3—10—2023 तक अप. 05.00 बजे

विवरण	सुरक्षित मूल्य (भारतीय रूपए में)	ईएमडी (भारतीय रूपए में)
उपलब्ध आस्तियां : भारतीय ऋणशोध अक्षमता और दिवाला बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 32 (सी) के अनुसार सामूहिक रूप से ई—नीलामी में बिक्री के लिए आस्तियों का निम्नलिखित लॉट उपलब्ध है : लॉट 1 : व्यापार प्राप्य और कम्प्यूटर	रू. 2,25,02,000 ∕ −	ক. 22,50,200 ∕ −

इच्छक आवेदक द्वितीय ई–नीलामी के नियम एवं शर्तों के लिए पूर्ण ई–नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज देखें, जो ई–नीलामी प्लेटफार्म www.eauctions.co.in तथा कार्पोरेट देनदार की वेबसाइट www.ramgarhtradelinks.co.in पर भी उपलब्ध है। परिसमापक को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय कोई भी बोली स्वीकार या अस्वीकार करने या निरस्त करने या आगे बढाने अथव ई—नीलामी के नियम एवं शर्तों में संशोधन करने का अधिकार है। ई—नीलामी बोलीदान के संबंध में किसी भी पछताछ के लिए सम्पर्क करें : श्री विजय पिपलिया तथा श्री इश्तियाक अहमद +91 –9870099713 ई–मेल : admin@eauctions.co.in अथव ई—मेल : cirp.ramgarhtpl@gmail.com अथवा सुश्री ईशा अरोड़ा (परिसमापक की टीम सदस्य) से मोबाइल

> मोहन लाल जैन मैसर्स रामगढ़ ट्रेडलिंक्स प्राइवेट लिमिटेड (पहले मोन्टेज पैकेजिंग सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ज्ञात) के मामले में परिसमापक पंजी. सं. : IBBI/IPA-002/IP-N00006/2016-17/10006

आईबीबीआई में पंजीकृत पता : एफ-2/28, परिसमापक का परियोजना विशिष्ट पता सेक्टर-15, रोहिणी, नई दिल्ली-110089 सी/ओ सुमेधा मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स प्रा. लि. बी-1 / 12, द्वितीय तल, सफदरेजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029 आईबीबीआई में पंजीकृत इ—मेल : cirp.ramgarhtpl@gmail.com ml-jain@sumedhamanagement.com फोन : 011 4165 4481 / 85 | +91 7042773564

तिथि : 19-09-2023

स्थान : नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली

PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

आदित्य बिङ्ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : इंडियन रेयॉन कंपाउंड, वेरावल, गुजरात-362266 शाखा कार्यालय : आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, डी-17, सेक्टर-3, नोएडा, उत्तर प्रदेश 1. एबीएचएफएल : प्राधिकृत अधिकारी श्री मनदीप लुथरा, संपर्क नंबर— 09999009978, श्री अमनदीप तनेजा, संपर्क नंबर— 919711246064 एवं श्री चिराग लोखंडे, संपर्क नंबर 91 9773758208 2. नीलामी सेवा प्रदाता (एएसपी) :- मैसर्स ग्लोब टेक इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड - श्री समीर चक्रवर्ती

अचल संपत्ति के विक्रयार्थ विक्रय सुचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसम्पित्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल

परिसंपत्ति(यों) के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना। जबिक आदित्य बिड्ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी / प्रतिभूत ऋणदाता ने वित्तीय परिसम्पित्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पूनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफॉएसि) की धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत सूचना के अनुसार निम्नलिखित प्रतिभृत परिसंपित्तियों का अधिग्रहण कर लिया था। यह अधिग्रहण जो किया गया था. वह निम्नलिखित ऋणकर्ताओं और सह—ऋणकर्ताओं की ओर से प्रतिभूत ऋणदाता को देय–भुग्तेय प्रतिभूत ऋणों के तहत यहां इसमें निम्न अंकितानुसार बकाया राशियों और इन पर भावी शुल्कों एवं लागत की वसूली के लिए किया गया था। एतदद्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में ऋणकर्ताओं और सह—ऋणकर्ताओं को सचित किया जाता है कि आदित्य बिडला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को देय–भग्तेय ऋणों की राशि की वसली के लिए

निम्	निम्नलिखित सपत्ति की ई—नीलामी का आयोजन "जैसी है जहा है" और "जैसी है जो है" आधार पर किया जाएगा।								
큙 .		संपत्तियों / प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विवरण	मांग सूचना के	आरक्षित मूल्य	धराज	अंतिम	निरीक्षण तिथि	ई—नीलामी	9 8
सं.	सह—ऋणकर्ताओं के नाम		अनुसार राशि			धराज तिथि	एवं समय	की तिथि	. 1
1.	दीपक शर्मा, सुनीता देवी,	पलैट नं. एस—5 के समस्त वह भाग तथा अंश जो द्वितीय तल पर, एलआईजी श्रेणी, (पीछे बायीं ओर, छताधिकारों के बिना), क्षेत्रफल 550 वर्ग फुट अर्थात् 51.09 वर्ग मीटर, जो कि प्लॉट नं. सी—66, ब्लॉक सी, आवासीय कॉलोनी शालीमार गार्डन एक्सटेंशन — 2, ग्राम पसोंदा, तहसील एवं जनपद गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित हैं।	(रुपये तेरह लाख पिचासी हजार पांच सौ इक्कीस मात्र)	रु. 10,53,162 / — (रुपये दस लाख तिरेपन हजार एक सौ बासठ मात्र)	रु. 1,05,316.20 / — (रुपये एक लाख पांच हजार तीन सौ सोलह एवं बीस पैसे मात्र)	7/13/14/14/14/14/14/14/14/14	05—10—2023 को मध्या. 11.00 से अप. 4.00 बजे के मध्य	09-10-2023	
2.	सुरेश तिवारी, राम कुमार त्रिपाठी, रमाकांत गोपाल	मकान नं. 1/66—सी के समस्त वह भाग तथा अंश, जिसका अधिमापन 28.56 वर्ग मीटर है, जो तृतीय तल पर, सेक्टर—1, कामना वैशाली, तहसील एवं जनपद गाजियाबाद में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है : उत्तर— भू तल पर खुला स्थान, दक्षिण— संपत्ति सं.—65—सी, पूर्व— भू तल पर 30'	(रुपये बारह लाख पच्चीस हजार दो सौ तिरेपन मात्र)	रु. 7,00,317 / — (रुपये सात लाख तीन सौ सत्रह मात्र)	, \	06-10-2023	05—10—2023 को मध्या. 11.00 से अप. 4.00 बजे के मध्य	09-10-2023	G .

विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड / प्रतिभूत ऋणदाता की वेबसाइट अर्थात् https://homefinance.adityabirlacapital.com/properties-forauction-under-sarfaesi-act अथवा https://BestAuctionDeal.com में उपलब्ध लिंक का संदर्भ ग्रहण करें।

बिनांक : 19-09-2023 स्थान : गानियाबाद

चौडी सडक, पश्चिम— संपत्ति सं.—67—सी

प्राधिकत अधिकारी. आदित्य बिड्ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

नीमसर व्यापार प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) (पहले मोन्टेज फ्लेक्सीपैक सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ज्ञात) सीआईएन: यू51909डीएल2019पीटीसी354268 पंजीकृत कार्यालय : सी-46, दुकान नंबर 4, आचार्य निकेतन, मयूर विहार फेज-1, पटपड्गंज, ईस्ट दिल्ली-110091 ऋणशोध अक्षमता और दिवाला संहिता, 2016 के तहत द्वितीय ई-नीलामी बिक्री

एतदद्वारा सर्वसाधारण को ऋणशोध अक्षमता और दिवाला संहिता. 2016 और तदधीन विरचित विनियम के तहत सुचना दी जाती है कि नीमसर व्यापार प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) ("कार्पोरेट देनदार' की आस्तियां भारतीय ऋणशोध अक्षमता और दिवाला बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमावली. 2016 के विनियम 32 (सी) के अनुसार सामहिक रूप से "जैसी है जहां है, जो है वहां है तथा कोई वापसी नहीं आधार" पर बेची जानी प्रस्तावित हैं और अतएव निपटान हेतू उक्त प्रस्ताव किसी भी प्रकार की वारंटियों

तथा क्षतिपूर्तियों के बगैर है। नीचे तालिका में वर्णित आस्तियों के लिए बोलीदान ऑनलाइन ई—नीलामी सेवा प्रदाता मैसर्स लिंकस्टार इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से ूण्मंनबजपवदेण्बवण्पद द्वार संभावित बोलीदाता द्वारा आवश्यक प्रपत्र, शपथत्र, घोषण 19-09-2023 से 3-10-2023 तक अप 05.00 ब इत्यादि का प्रस्तुतीकरण निरीक्षण तिथि एवं समय 09-10-2023 से 16-10-2023 तक (पूर्वा. 10.00 ब से अप. 05.00 बजे तक) ईएमडी जमा करने हेतु अंतिम तिथि 17-10-2023 को अथवा पूर्व अप. 07.00 बजे तक ई-नीलामी की तिथि एवं समय

	के साथ	
विवरण	सुरक्षित मूल्य (भारतीय रूपए में)	ईएमडी (भारतीय रूपए में)
उपलब्ध आस्तियां : भारतीय ऋणशोध अक्षमता और दिवाला बोर्ड (परिसमापन	रू. 20,02,000.00 ∕ −	₹5. 2,00,200.00 / -
प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 32 (सी) के अनुसार सामूहिक रूप से ई—नीलामी में बिक्री के लिए आस्तियों का		
निम्निलिखित लॉट उपलब्ध है : लॉट 1 : व्यापार प्राप्य और कम्प्यूटर		
टक्क आवेटक दिवीय ई-नीलामी के नियम गर्व भावों के लिए गर्ण ई-र्न	। विद्यामी प्रक्रिया टब्स्वावेज टेग्वे	ं जो ई-नीलामी क्लेटाहार्म

20-10-2023 को अप. .3.00 बजे से अप. 05.00

बजे के बीच 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तारों

इच्छुक आवेदक द्वितीय ई—नीलामी के नियम एवं शतों के लिए पूर्ण ई—नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज देखें, जो ई—नीलामी प्लेट www.eauctions.co.in तथा कार्पोरेट देनदार की वेबसाइट www.ramgarhtradelinks.co.in पर भी उपलब्ध है। परिसमापव को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय कोई भी बोली स्वीकार या अस्वीकार करने या निरस्त करने या आगे बढाने अथव ई–नीलामी के नियम एवं शर्तों में संशोधन करने का अधिकार है। ई–नीलामी बोलीदान के संबंध में किसी भी पुछताछ के लिए, सम्पर्क करें : श्री विजय पिपलिया तथा श्री इश्तियाक अहमद +91 -9870099713 ई-मेल : admin@eauctions.co.in अथवा ई–मेल : cirp.ramgarhtpl@gmail.com अथवा सुश्री ईशा अरोड़ा (परिसमापक की टीम सदस्य) से मोबाइल

मोहन लाल जैन मैसर्स रामगढ़ ट्रेडलिंक्स प्राइवेट लिमिटेड (पहले मोन्टेज पैकेजिंग सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ज्ञात) के मामले में परिसमापक तिथि : 19-09-2023 पंजी. सं. : IBBI/IPA-002/IP-N00006/2016-17/10006

परिसमापक का परियोजना विशिष्ट पता : आईबीबीआई में पंजीकृत पता : एफ–2/28, सेक्टर-15, रोहिणी, नई दिल्ली-110089 सी / ओ समेधा मैनेजमेंट सॉल्युशन्स प्रा. लि. आईबीबीआई में पंजीकृत बी-1/12, द्वितीय तल, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029 ई–मेल : cirp.ramgarhtpl@gmail.com ml-iain@sumedhamanagement.com फोन : 011 4165 4481 / 85 | +91 7042773564

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड Container Corporation of India Ltd.

एनएसआईसी नई एमडीबीपी बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, ओखला इंडस्टीयल। एस्टेट (एनएसआईसी ओखला मेट्रो स्टेशन के सामने), नई दिल्ली-110020

निविदा सूचना (केवल ई-टेंडरिंग मोड) एमएमएलपी तिही (म.प्र.) में आईएसओ/डीएसओ कंटेनरों की मरम्मत के लिए

ओपन ई-टेंडर (दो बोली प्रणाली में) के लिए ई-बोलियां आमंत्रित की जाती हैं। कॉन/क्षेत्र-॥/(आईएसओ/डीएसओ) कंटेनर मरम्मत/सीजीपीटी/2023 चार (४) वर्षों के लिए रु. 2.60.34.298/- (जीएसटी सहित)। अनुमानित लागत बिक्री की तारीख (ऑनलाइन) 19/09/2023 को 15:00 बजे से। 10/10/2023 (16:00 बजे तक) जमा करने की अंतिम तिथि और समय | 11/10/2023 को 17:00 बजे तक। खलने की तिथि एवं समय 12/10/2023 को 11:30 बजे।

पात्रता मानदंड और अन्य विवरणों के लिए कृपया www.concorindia.com या eprocure.gov.in य www.tenderwizard.com/CCIL पर लॉग ऑन करें। बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे नियमित रूप से वेबसाइटों पर जाएँ। कार्यकारी निदेशक/क्षेत्र-॥

पिताम्बरा बिजनेस प्रमोशन्स प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) (पूर्व में मॉन्टेज प्रिन्टपैक सैल्स प्राइवेट लिमिटेड)

सीआईएन: U51909DL2019PTC354412 पंजीकृत कार्यालयः बी-109, जी/एफ, दुकान नं. -7, गली नंबर 10, शशि गार्डन, मयूर विहार फेज-1, एनए दिल्ली ईस्ट दिल्ली डीआई-110091

दिवाला और दिवालिया संहिता, 2016 के तहत 2 री ई—नीलामी बिक्री सूचना दिवाला तथा दिवालिया संहिता, 2016 के तथा उसके अंतर्गत निर्मित विनियमनों के अंतर्गत सर्व-साधारण को एतदद्वारा सचित किया जाता है कि ''जैसा है जहाँ है, जो भी जैसा है, जो कछ भी वहाँ है तथा उपचार रहित आधार" पर भारत दिवला तथा दिवालिया मंडल (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 32 (सी)

के अनसार पिताम्बरा बिजनेस प्रमोशन्स प्राईवेट लिमिटेड (परिसमापन में) ("कॉर्पोरेट डेब्टर") की परिसम्पत्तियों

की सामृहिक रूप से बिक्री करने का प्रस्ताव है तथा इस प्रकार निपटान के लिये उक्त बिक्री बिना किसी वारंटीज तथा क्षतिपूर्ति की होगी। नीचे तालिका में वर्णित परिसम्पत्तियों की बिडिंग ई-नीलामी सेवा प्रदाता में लिंकस्टार इन्फोसिस प्राईवेट लिमिटेड द्वारा वेबसाईट www. eauctions.co.in के माध्यम से ऑन-लाइन ई-नीलामी संभावित बोलीदाता द्वारा वांछित प्रपत्रों, शपथ-पत्र, उद्घोषणा आदि। 19.9.2023 से 30.10.2023 को 5.00 बजे जमा करना 9.10.2023 से 16.10.2023 (10 बजे पूर्वा. निरीक्षण की तिथि एवं समय से 5 बजे अप. तक)

ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि

लॉट : 1 ट्रेड रिसीवेवल्स तथा कम्प्यूट

संभावित बोलीदाता द्वारा आवश्यक प्रपत्र,

शपथत्र, घोषण इत्यादि का प्रस्तुतीकरण

स्थान : नई दिल्ली

20.10.2023 को 3.00 बजे अप. से 5.00 नीलामी की तिथि एवं समय बजे अप. तक प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ (आईएनआर में) (आईएनआर में) रु. 1,00,02,000/ ₹. 10,00,200/ भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन. 2016 के विनियमन 32(सी) के अनुसार सामृहिक रूप से ई-नीलामी में बिक्री के लिए उपलब्ध बिक्री के लिए उपलब्ध परिसम्पत्तियों का निम्न लॉट:

इच्छुक आवेदन ई–नीलामी प्लेटफार्म www.eauctions.co.in तथा कॉर्पोरेट डेब्टर की वेबसाईट www.pitambarabusiness.co.in पर उपलब्ध 2री ई-नीलामी के नियमों एवं शर्तों से शामिल सम्पर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज देख सकते है। परिसमापक को कोई भी कारण बताये बिना किसी भी बोली को स्वीकार अथवा निरस्त करने अथवा किसी भी समय में ई-नीलामी की किसी भी शर्तों को बढ़ाने अथवा संशोधित करने का सम्प्रभ अधिकार प्राप्त है। ई-नीलामी बोली से संबंधित किसी भी पछताछ के लिएे सम्पर्क करें: श्री विजय पिपलिया तथा श्री इस्तियाक अहमद, +91-9870099713, ई-मेल admin@eauctions.co.in अथवा cirp.pitambarabppl@gmail.com पर ई-मेल करें अथवा मो. :+91-

8130249927 पर सुश्री इशा अरोरा (परिसमापक की टीम के सदस्य) से सम्पर्क करें। मोहन लाल जैन, परिसमापक मै. पिताम्बर बिजनेस प्रमोशन्स प्राईवेट लिमिटेड (पूर्व में मॉन्टेज प्रिन्टपैक सैल्स प्राईवेट लिमिटेड के नाम से विदित) के मामले में पंजी. नं. : IBBI/IPA-002/IP-N00006/2016-17/10006

> 19-09-2023 से 3-10-2023 तक अप. 05.00 बजे से पूर्व

17.10.2023 को 7.00 बजे अप. या पूर्व

आईवीवीआई में पंजीकृत पता : एफ 2/28, सेक्टर-15, रोहिणी, नई दिल्ली-110089 **सी/ओ सुमेधा मैनेजमेट सॉल्युशन्स प्रा**.लि. आईवीवीआई में पंजीकृत ईमेल आईडी: बी-1/12, 2रा तल, सफदरगंज एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029 ml_jain@sumedhamanagement.com | ईमेल : cirp.pitambarabppl@gmail.com फोन : 011 41654481/85/+ 91 7042773564

विदर्भ ट्रेडिंग प्राइवेट लिभिटेड (पहले मोन्टेज मैरीनो सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ज्ञात)

सीआईएन: यू51909डीएल2019पीटीसी354643 पंजीकृत कार्यालय : कार्यालय सं. 3, डी-21, आचार्य निकेतन, मयूर विहार फेज-1, पटपड्गंज, ईस्ट दिल्ली-110091

ऋणशोध अक्षमता और दिवाला संहिता, 2016 के तहत द्वितीय ई-नीलामी बिक्री एतदद्वारा सर्वसाधारण को ऋणशोध अक्षमता और दिवाला संहिता. 2016 और तदधीन विरचित विनियमे

के तहत सूचना दी जाती है कि विदर्भ ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) ("कार्पोरेट देनदार") की आस्तियां भारतीय ऋणशोध अक्षमता और दिवाला बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 32 (सी) के अनुसार सामृहिक रूप से "जैसी है जहां हे, जो है वहां है तथा कोई वापसी नहीं आधार" पर बेची जानी प्रस्तावित हैं और अतएव निपटान हेतू उक्त प्रस्ताव किसी भी प्रकार की वारंटियों तथा क्षतिपूर्तियों के बगैर है। नीचे तालिका में वर्णित आस्तियों के लिए बोलीदान ऑनलाइन ई-नीलामी सेवा प्रदाता मैसर्स लिंकस्टार इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से www.eauctions.co.in द्वारा सम्पन्न होगा।

09—10—2023 से 16—10—2023 तक (पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे तक)			
17—10—2023 को अथवा पूर्व अप. 07.00 बजे तक			
20-10-2023 को अप3.00 बजे से अप. 05.00 बजे के बीच 5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तारों के साथ			
सुरिक्षेत मूल्य	ईएमडी (भारतीय रूपए में)		
(भारतीय रूपए में)	T 71 51 000 (
(मारताय रूपए म)	र्रु. 71,51,200 ∕ —		
1 2 3	7—10—2023 को अथवा 0—10—2023 को अप वप. 05.00 बजे के बीच वसीमित विस्तारों के सा सुरक्षित मृल्य		

इच्छुक आवेदक द्वितीय ई–नीलामी के नियम एवं शर्तों के लिए पूर्ण ई–नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज देखें, जो ई–नीलामी प्लेटफा www.eauctions.co.in तथा कार्पोरेट देनदार की वेबसाइट www.vidharvatrading.co.in पर भी उपलब्ध है। परिसमापव को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय कोई भी बोली स्वीकार या अस्वीकार करने या निरस्त करने या आगे बढ़ाने अथवा ई—नीलामी के नियम एवं शर्तों में संशोधन करने का अधिकार है। ई—नीलामी बोलीदान के संबंध में किसी भी पूछताछ के लिए सम्पर्क करें: श्री विजय पिपलिया तथा श्री इश्तियाक अहमद +91 -9870099713 ई-मेल admin@eauctions.co.in अथव ई—मेलः cirp.vidharvatpl@gmail.com अथवा सुश्री ईशा अरोड़ा (परिसमापक की टीम सदस्य)

मोबाइलः +91-8130249927 पर सम्पर्क करें। मोहन लाल जै मैसर्स विदर्भ ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेर (पहले मोन्टेज मैरीनो सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ज्ञात तिथि : 19-09-2023 के मामले में परिसमापत

स्थान : नई दिल्ली पंजी. सं. : IBBI/IPA-002/IP-N00006/2016-17/1000 परिसमापक का परियोजना विशिष्ट पता सी/ओ सुमेधा मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स प्रा. लि. बी-1/12, द्वितीय तल, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029 सेक्टर-15, रोहिणी, नई दिल्ली-110089 आईबीबीआई में पंजीकृत ई–मेल ई–मेल : cirp.vidharvatpl@gmail.com ml-jain@sumedhamanagement.com | फोन : 011 4165 4481/85 | +91 7042773564

सोम दत्त फाइनेंस कॉपोरेशन लिमिटेड CIN: L65921DL1993PLC377542 पंजीकृत कार्यालयः 516, सनेजा टॉवर-1, जिला केंद्र, जनकपरी, दिल्ली - 110058

टेलीफोनः +9810228093, ई-मेल आईडीः compliancesdfl@gmail.com, वेबसाइटः www.somdattfin.com डाक मतपत्र सूचना एवं ई-वोटिंग सूचना

एतदह्वारा सचना दी जाती है कि सोम दत्त फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ('कंपनी') निम्नलिखित संकल्पों पर रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से डाक मतपत्र के माध्यम से कंपनी के सदस्यों की मंजूरी मांग रही है।

डॉ. भास्कर राव बोलिनेनी (डीआईएन: 00008985) को कंपनी के गैर-कार्यकार्र सामान्य संकल्प निदेशक के रूप में नियुक्त करना श्री भवनम रूथविक रेड्डी (डीआईएनः 08372627) को कंपनी के पूर्णकालिक

विशेष संकल्प निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करना। श्री वीर्स वेंकट सुब्बा राव मेका (डीआईएनः 07173955) को कंपनी के प्रबंध निदेशक विशेष संकल्प के रूप में नियुक्त करना 4 सुश्री जयंती तल्लुरी (डीआईएनः 09272993) को कंपनी के गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना डाक मतपत्र नोटिस ('नोटिस') कंपनी की वेबसाइट www.somdattfin.com, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी

www.bseindia.com जिस पर कंपनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, पर उपलब्ध है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी (सामृहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' कहा जाता है) सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020, 22/2020 दिनांक 15 जून 2020, 33/2020 दिनांक 28 सितंबर 2020, 39/2020 दिनांक 31 दिसंबर 2020 10 /2021 दिनांक 23 जन 2021, 20/2021 दिनांक 8 दिसंबर 2021, 3/2022 दिनांक 5 मई 2022, और 11/2022 दिनांक 28 दिसंबर 2022 के अनुपालन में, कंपनी ने सोमवार, 18 सितंबर, 2023 को व्याख्यात्मक विवरण के साथ डाक मतपत्र नोटिस की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजी हैं, जिनके ई-मेल पते शुक्रवार, 15 सितंबर, 2023 ('कट-ऑफ तारीख') को कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत

हैं। तदनसार, डाक मतपत्र फॉर्म और प्रीपेड बिजनेस उत्तर लिफाफे के साथ नोटिस की भौतिक प्रति सदस्यों को नहीं

लिमिटेड ('एनएसडीएल') की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट

कंपनी ने अपने सभी सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सविधा प्रदान करने के लिए एनएसडीएल की सेवाएं ली हैं। रिमोट ई-वोटिंग अवधि बुधवार, 20 सितंबर, 2023 को सुबह 9.00 बजे (आईएसटी) से शुरू होती है और गुरुवार, 19 अक्टबर, 2023 को शाम 5.00 बजे (आईएसटी) पर समाप्त होती है।

उसके बाद एनएसडीएल द्वारा ई–वोटिंग मॉडयल अक्षम कर दिया जाएगा। जिन सदस्यों ने अपना ई–मेल पता अपडेट नहीं किया है, उनसे अनरोध है कि वे इलेक्टॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में अपने डिपॉजिटरी भागीदार के माध्यम से डिपॉजिटरी के साथ इसे पंजीकृत करें और भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में कंपनी रजिस्ट्रार और टांसफर एजेंट, आरसीएमसी शेयर रजिस्टी प्राइवेट लिमिटेड ('आरटीए') या तं investor.services@rcmcdelhi.com पर ईमेल द्वारा या डाक द्वारा इन्वेस्टर सेल, आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड बी-25/1, प्रथम तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, चरण 2, नई दिल्ली 110 020 को लिखकर इसे

बोर्ड ने डाक मतपत्र प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संचालित करने के लिए नवीन नारंग एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज की पार्टनर श्रीमती ज्योति नारंग (सदस्यता संख्या 5698 सीपी संख्या 5199) को संवीक्षक

ई-वोटिंग की जांच पूरी होने के बाद, संवीक्षक अपनी रिपोर्ट बोर्ड, या उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा, और परिणाम शुक्रवार, 20 अक्टूबर, 2023 को या उससे पहले घोषित किया जाएगा और कंपनी की वेबसाइट यानी www.somdattfin.com और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर और बीएसई लिमिटेड ('बीएसई') को सूचित किया जाएगा, जहां कंपनी के इक्विटी शेयर उक्त तिथि पर सूचीबद्ध हैं, पर पुदर्शित भी किया जाएगा।

किसी भी प्रश्न के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या 022 -4886 7000 और 022 2499 7000 पर कॉल करें या श्री अमित विशाल, सहायक उपाध्यक्ष, एनएसडीएल, या श्री संजीव यादव, सहायक प्रबंधक, एनएसडीएल को evoting@nsdl.co.in या एनएसडीएल, 4" मंजिल, 'ए' विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापित बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई 400013 फ अनुरोध भेजें।

> बोर्ड के आदेशानुसार सोम दत्त फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

स्थानः हैदराबाद नेहा अग्रवाल दिनांक: 12 सितंबर, 2023

www.readwhere.com